



## सस्टेनेबल सटीज़ इंडिया कार्यक्रम

### प्रलिस के लिये:

सस्टेनेबल सटीज़ इंडिया प्रोग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अरबन अफेयर्स (NIUA), वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्मार्ट सटीज़ मशिन, अटल मशिन फॉर अरबन रजिवेशन एंड अरबन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)।

### मेन्स के लिये:

शहरीकरण, संरक्षण, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में **वशिव आर्थिक मंच (WEF)** और **शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए)** द्वारा संयुक्त रूप से डिज़ाइन किये गए 'सस्टेनेबल सटीज़ इंडिया प्रोग्राम' पर सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए।

- यह पहल भारत द्वारा **COP26** में जलवायु शमन प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 2070 तक नेट जीरो की भारत की प्रतबिद्धता के बाद की गई है।

## 'सस्टेनेबल सटीज़ इंडिया प्रोग्राम' के प्रमुख बिंदु:

- इसका उद्देश्य शहरों के ऊर्जा, परिवहन तथा पर्यावरणीय क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन समाधान प्रदान कर एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना है।
- WEF और NIUA दो वर्षों में WEF की 'सटी स्पर्टि प्रक्रिया' तथा 'टूलबॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस' के तहत पाँच से सात भारतीय शहरों को डीकार्बोनाइजेशन के लिये अनुकूलित करेंगे।
  - सटी स्पर्टि प्रक्रिया (City Sprint Process):** यह बहु-क्षेत्रीय, बहु-हतिधारक कार्यशालाओं की एक शृंखला है, जिसमें व्यापार, सरकार और नागरिक समाज के प्रमुखों को शामिल किया जाता है, विशेष रूप से स्वच्छ वदियुतीकरण व वतिरण के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाने हेतु इसका क्रयान्वयन किया जाता है।
  - टूलबॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस (Toolbox of Solutions):** यह एक डिजिटल प्लेटफार्म है, जिसमें स्वच्छ वदियुतीकरण, दक्षता तथा स्मार्ट बुनयिदी ढाँचे के 200 से अधिक उदाहरण मौजूद हैं और इसके लिये दुनिया भर के 110 से अधिक शहरों में इमारतों, ऊर्जा प्रणालियों एवं गतशीलता के मामलों का अध्ययन किया गया है।

## डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता:

- वशिव आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत जैसे घनी आबादी वाले देश जो कृषिपर अत्यधिक निर्भर हैं, विशेष रूप से जलवायु असुरक्षा की चपेट में हैं।
  - शहरों में डीकार्बोनाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का एक वास्तविक अवसर है और भारत के शहर इस लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नेट जीरो कार्बन का मकसद सटीज़ मशिन, स्वच्छ वदियुतीकरण और वतिरण हेतु एक सक्षम वातावरण निर्मित करना है।
  - कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा, पर्यावरण और परिवहन क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिये सार्वजनिक-नजी सहयोग को बढ़ावा देना है।

## शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (NIUA):

- वर्ष 1976 में स्थापित **शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Urban Affairs-NIUA)** शहरी नियोजन और विकास पर भारत का प्रमुख राष्ट्रीय थक टैंक है।
- शहरी क्षेत्र में अत्याधुनिक **अनुसंधान और प्रसार** के लिये एक केंद्र के रूप में एनआईयूए तेजी से शहरीकरण करने वाले भारत की चुनौतियों का

अभिनव समाधान प्रदान कर भविष्य के अधिक समावेशी और सतत शहरों हेतु मार्ग प्रशस्त करना चाहता है।

## भारत सरकार द्वारा शहरी विकास हेतु शुरू की गई प्रमुख पहलें:

- [स्मार्ट सिटी मिशन](#)
- [कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन- अमृत मिशन \(AMRUT\)](#)
- [प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी \(PMAY-U\)](#)
- [एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र \(ICCCs\)](#)
- [कलाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0](#)
- [ट्यूलिप- द अरबन लर्निंग इंटरनैशनल प्रोग्राम](#)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sustainable-cities-india-program>

